

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 11.11.2022 को जनपद में अपराधियों के विरूद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त ईशू तिवारी उर्फ आर्दश तिवारी पुत्र गिरीश चन्द तिवारी उ निवासी ग्रा0 जगन्नाथपुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद खोखा 315 बोर सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना डेरापुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.वीर सिंह पुत्र कन्हई निवासी हारामऊ थाना रूरा 2.उमेश यादव पुत्र ज्ञान सिंह यादव निवासी मुडरिया सहार थाना दिविग्रापुर जनपद औरैया 3.विनय पुत्र सुघर लाल निवासी हारामऊ रूरा जनपद कानपुर देहात को सार्वजनिक स्थान पर हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रूरा पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त बलवान उर्फ सर्वेन्द्र पुत्र स्व0 मनीराम निवासी ठकुरान गढेवा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा वारन्टी अभियुक्त दीपू पुत्र गंगाराम निवासी औरंगपुर गहदेवी थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 20 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द0प्र0सं0 में किया गया। जिसमें थाना सिकंदरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना शिवलीर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना बरौर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रनिया पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, का धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया।